



भिन्नों का घटाव (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{9} - \frac{1}{3} =$$

$$\frac{7}{9} - \frac{4}{7} =$$

$$\frac{7}{5} - \frac{1}{5} =$$

$$\frac{2}{6} - \frac{1}{4} =$$

$$\frac{2}{4} - \frac{1}{9} =$$

$$\frac{4}{8} - \frac{1}{7} =$$

$$\frac{5}{3} - \frac{4}{8} =$$

$$\frac{5}{3} - \frac{3}{6} =$$

$$\frac{7}{8} - \frac{2}{9} =$$

$$\frac{3}{2} - \frac{6}{5} =$$



भिन्नों का घटाव (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{9} - \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$\frac{7}{9} - \frac{4}{7} = \frac{13}{63}$$

$$\frac{7}{5} - \frac{1}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$$

$$\frac{2}{6} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{2}{4} - \frac{1}{9} = \frac{7}{18}$$

$$\frac{4}{8} - \frac{1}{7} = \frac{5}{14}$$

$$\frac{5}{3} - \frac{4}{8} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$$

$$\frac{5}{3} - \frac{3}{6} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$$

$$\frac{7}{8} - \frac{2}{9} = \frac{47}{72}$$

$$\frac{3}{2} - \frac{6}{5} = \frac{3}{10}$$